

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 303]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 21 जुलाई 2014—आषाढ 30, शक 1936

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 21 जुलाई 2014

संशोधन

क्र. 3234-स्था.निर्वा.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम, भोपाल की सीमावृद्धि के संबंध में कार्यालय कलेक्टर, भोपाल के पत्र क्र. 3227/स्टेनो/2014, दिनांक 18 जुलाई 2014 की अधिसूचना का प्रकाशन “मध्यप्रदेश राजपत्र” असाधारण क्रमांक 299, दिनांक 18 जुलाई 2014 को किया गया है जिसके पृष्ठ क्रमांक 597 पर हिन्दी के पैरा क्रमांक 2 में तीसरी पंक्ति में तीन दिवस त्रुटिवश प्रकाशित हो गया है, जिसे संशोधन कर तीन दिवस के स्थान पर तीस दिवस पढ़ा जावे.

निशांत वरवड़े, कलेक्टर.